



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (b)

PART II—Section 3—Sub-section (b)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 1977/वैशाख 14, 1899

No. 148]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 1977/VAISAKHA 14, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 4th May 1977

G.S.R. 219(E).—In pursuance of the second proviso to sub-rule (1) of rule 32 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendment in the notification of the Central Board of Excise and Customs No. 292/76-Central Excises, dated the 21st December, 1976, namely:—

In the said notification, in clause (d), for the figures "2.5", the figure "5" shall be substituted.

[No. 79/77]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचनाएँ

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 4 मई, 1977

सांका०नि० 219(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 32 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसरण में, अपनी अधिसूचना सं० 292/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, खण्ड (घ) में “2.5” श्रकों के स्थान पर “5” श्रक रखा जाएगा ।

[सं० 79/77]

G.S.R. 220(E).—In pursuance of rule 34 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Central Board of Excise and Customs No 27/77-Central Excises, dated the 25th February, 1977, the Central Board of Excise and Customs hereby directs that in the case of unmanufactured tobacco, the validity of a sale-note shall, if the transport is by means of a mechanised vehicle, for the whole or part of the distance, be upto the midnight of the date of issue, and in other cases till sunset of the day following the date of issue.

[No. 80/77]

सांका०नि० 220(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 34 के अनुसरण में और अपनी अधिसूचना सं० 27/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 25 फरवरी, 1977 को अधिकांत करते हुए, यह निदेश करता है कि अविनिमित्त तम्बाकू की दशा में, यदि उसका परिवहन गन्तव्य या उसके किसी भाग तक यंत्रचालित यान से किया गया है तो, विक्रय-नोट की विधि-मान्यता उसके जारी किए जाने की तारीख की अर्धरात्रि तक होगी, और अन्य दशाओं में उसकी विधिमान्यता जारी किए जाने की तारीख के ठीक अगामी दिन के सूर्यास्त तक होगी ।

[सं० 80/77]

G.S.R. 221(E).—In pursuance of rule 34 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of notification of the Central Board of Excise and Customs No. 60/77-Central Excises, dated the 12th April, 1977, the Central Board of Excise and Customs hereby directs that in respect of unmanufactured tobacco specified in column 1 of the Table hereto annexed and transported in the manner specified in the corresponding entry in column 2 thereof, the transport certificate shall be valid for the period specified in the corresponding entry in column 3 thereof and shall be subject to the conditions, if any, specified in the corresponding entry in column 4 of the said Table.

TABLE

Description of unmanufactured tobacco	Mode of transport	Period of validity	Conditions, if any
1	2	3	4
(i) Virginia of Indian Aircured 'string' tobacco	(a) wholly or partly by mechanised vehicle	(i) 12 hours from time of issue (ii) 24 hours, from time of issue	if the distance to be covered is 250 kms. or less ; of the distance to be covered is more than 250 kms.

1	2	3	4
	(b) wholly by non-mechanised vehicle	(i) upto 6 A. M. of the day following the date of issue.	if the distance to be covered is 30 kms. or less;
		(ii) upto 6 A. M. of second day following the date of issue.	if the distance to be covered is more than 30 kms.
(2) All others	(a) wholly or partly by mechanised vehicle	(i) 12 hours from the time of issue, excluding the night hours during which ferries, if any, on the way do not operate.	if the distance to be covered is 250 kms. or less;
		(ii) 24 hours from the time of issue, excluding the night hours during which ferries, if any, on the way do not operate.	if the distance to be covered is more than 250 kms.
	(b) wholly by non-mechanised vehicle	upto sunset of the day following the date of issue.	

[No. 81/77]

सांकांलि० 221(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 34 के अनुसरण में, और भारत सरकार के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं० 60/77 केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क तारीख 12 अप्रैल, 1977 को अधिकांत करते हुए, निदेश करता है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट और उसके स्तम्भ 2 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से परिवहित अविनिर्मित तम्बाकू के संबंध में परिवहन प्रमाणपत्र उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए तथा उसके स्तम्भ 4 में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, विधिमान्य होगा :—

सारणी

अविनिर्मित तम्बाकू का विवरण	परिवहन की पद्धति	विधिमान्यता की अवधि	शर्तें, यदि कोई हों
1	2	3	4
(1) वर्जिनिया या भारतीय वायु ससा-धित 'स्ट्रिंग' तम्बाकू	(क) पूर्णतया या अंशतया यंत्रचालित यान द्वारा	(i) जारी किए जाने के समय से 12 घंटे (ii) जारी किए जाने के समय से 24 घंटे	यदि तय की जाने वाली दूरी 250 किलो-मीटर या उससे कम है यदि तय की जाने वाली दूरी 250 किलोमीटर से अधिक है।

1	2	3	4
	(ख) पूर्णतया यंत्र-विहीन यान द्वारा	(i) जारी किए जाने की तारीख के ठीक आगामी दिन पूर्वार्द्ध 6 बजे तक । (ii) जारी किए जाने की तारीख के आगामी दूसरे दिन पूर्वार्द्ध 6 बजे तक ।	यदि तय की जाने वाली दूरी 30 किलोमीटर या कम है । यदि तय की जाने वाली दूरी 30 किलोमीटर से अधिक है ।
(2) अन्य सभी	(क) पूर्णतया या अंशतया यंत्रचालित यान द्वारा	(i) जारी किए जाने के समय से 12 घंटे किन्तु रात्रि के उतने समय को अपवर्जित करके जिसके दौरान रास्ते में पड़ने वाले घाट बन्द रहते हैं । (ii) जारी किए जाने के समय से 12 घंटे किन्तु रात्रि के उतने समय को अपवर्जित करके जिसके दौरान रास्ते में पड़ने वाले घाट बन्द रहते हैं ।	यदि तय की जाने वाली दूरी 250 किलोमीटर या कम है । यदि तय की जाने वाली दूरी 250 किलोमीटर से अधिक है ।
	(ख) पूर्णतया यंत्रविहीन यान द्वारा	जारी किए जाने की तारीख के ठीक आगामी दिन सूर्यास्त तक ।	

[सं० 81/77]

G.S.R. 222(E).—In exercise of the powers conferred under rule 139 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India, Department of Revenue and Banking No. 63/77-Central Excises, dated the 13th April, 1977, the Central Government hereby directs that the provisions of Chapter VII of the said rules, including the provisions relating to the removal of goods from one warehouse to another, shall apply to unmanufactured tobacco falling under sub-item 1 of Item 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

[No. 82/77]

N. C. JAIN, Under Secy.

सा०का०नि० 222(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नियम 1944 के नियम 139 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 63/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 13 अप्रैल, 1977 को अधिकांत करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त नियमों के अध्याय 7 के उपबंध, जिसमें एक आण्डागार से दूसरे को माल के हटाए जाने से संबंधित उपबंध भी आते हैं, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद 4 की उपमद 1 के अधीन आने वाले अविनिर्मित तम्बाकू को लागू होंगे।

[सं० 82/77]

एन० सी० जैन, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निर्यन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

